



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 27—नवम्बर 2, 2007 (कार्तिक 5, 1929)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27—NOVEMBER 2, 2007 (KARTIKA 5, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2007

सं. आरएस/3(i) 2007/112-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में निम्नलिखित सहायक निदेशकों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर उप निदेशक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है:-

1. श्री पी. नारायणन
2. डा. (श्रीमती) शुभश्री पाणिग्राही
3. श्री अजय कुमार मल्लिक
2. उपर्युक्त नियुक्तियां रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अध्वधीन होंगी।

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस/3(i)/2007/113- कार्मिक-- राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में निम्नलिखित वरिष्ठ

अधिशाली/विधायी/समिति/नयाचार सहायकों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ आधार पर अधिशाली/विधायी/समिति/नयाचार अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है:-

1. कुमारी चित्रा जी
2. श्री अमित कुमार
3. श्री थंगजालुन खुपटेंग
2. श्रीमती रश्मि गुप्ता, श्री सुरेश बी. मलकानी और प्रवीण कुमार, जिन्हें पूर्व में दिनांक 21 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. आरएस/3(i)/2007/108-कार्मिक द्वारा तदर्थ आधार पर अधिशाली/विधायी/समिति/नयाचार अधिकारियों के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अध्वधीन होंगी।

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560094, दिनांक 28 मार्च 2007

सं.बी 22012/1/2005-III--भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 की अधिनियम सं. 19) की धारा 8 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम (धारा 6-ए के सिवाए) के प्रावधान, उत्तर-पूर्वी अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (उ. पू.-सैक), शिल्लौंग के कर्मचारियों के लाभार्थ स्थापित भविष्य निधि पर लागू होंगे और भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 की अधिनियम सं. 19) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार "उत्तर-पूर्वी अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, शिल्लौंग" का नाम उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल करती है।

ई.वी. रमण रेड्डी, निदेशक

बैंगलूर-560094, दिनांक 5 जुलाई 2007

सं. 5/1(2)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर के श्री एन ज्ञानभरणीधरन, वैज्ञानिक/अभियन्ता-एसडी, का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 14.06.2006 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में श्री दर्शन हविनाल, वैज्ञानिक/अभियन्ता-एससी, का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 26.10.2006 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में श्री भट्ट गिरीश को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी., के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 08.05.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में डॉ एम एस सुरेश, वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी के स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 2.08.2006 के पूर्वाह्न से उन्होंने अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--डॉ आर ए कट्टी, वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी ने अपने निवृत्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी के पद का कार्यभार दिनांक 31.08.2006 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में श्रीमती शांति वेंकटेश, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी, के स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 01.11.2006 के पूर्वाह्न से उन्होंने अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में श्री बी के शामप्रकाश, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी, के स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 03.08.2006 के पूर्वाह्न से उन्होंने अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में श्रीमती के वेणी रामन, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ, के स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 13.09.2006 के पूर्वाह्न से उन्होंने अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में श्री जे एन हेमंत कुमार, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ, के स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.10.2006 के पूर्वाह्न से उन्होंने अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2005-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर के श्री परिपूर्ण नंद पान्डे, वैज्ञानिक/अभियन्ता-एसडी, का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 23.10.2006 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2005-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर के श्री प्रशांत कुमार बैसानी, वैज्ञानिक/अभियन्ता-एसडी, का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 21.12.2006 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर के श्री धीरज लोहानी, वैज्ञानिक/अभियन्ता-एसडी, का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 14.12.2006 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर के श्री चयन राय, वैज्ञानिक/अभियन्ता-एसडी, का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 24.11.2006 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--श्री के सी नावड, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी के पद का कार्यभार दिनांक 31.07.2006 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में, श्री आर वेंकटेश, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ के स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 05.07.2006 के पूर्वाह्न से उन्होंने अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--श्री जी सुब्रमणियन, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस जी ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी के पद का कार्यभार दिनांक 31.10.2006 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में, डॉ पी वेंकटेश्वरलु, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ के स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 10.07.2006 के पूर्वाह्न से उन्होंने अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्री विनोद नारायण बागी, वैज्ञा/अभियन्ता-एससी, का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 30.06.2006 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

दिनांक अगस्त 2007

सं. 5/1(2)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग बेंगलूर में आईजैक के निम्नलिखित क्रमशः वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1.	श्री/श्रीमती/कुमारी राजगम आर. के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	उत्कृष्ट वैज्ञानिक
2.	शेशय्या आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
3.	कोटेश्वर राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
4.	पिच्चय्या जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
5.	कल्याण कुमार के. जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
6.	वसंत कुमारी यू. एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
7.	सुब्बलक्ष्मी कृष्णमूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
8.	रविन्द्र बाबू टी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
9.	वेंकटेश्वर शर्मा एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
10.	अनिल अग्रवाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
11.	अश्वथनारायणन एस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी
12.	सगायराज डी.के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
13.	राधिका एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
14.	कुन्दिक्कना आचार्य के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
15.	शारदादेवी प्रकाश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
16.	रविचन्द्रन वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ
17.	दयाशंकर के. एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
18.	सत्यानारायणा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
19.	रघुरामन ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
20.	प्रशांत के पोद्दार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
21.	मंजुनाथ ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
22.	रमेश बाबू राज एस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई
23.	श्रीनिवास एच.एल.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसबी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग बेंगलूर में आईजैक के निम्नलिखित क्रमशः वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कुमारी		
1.	जिस्सी वर्गीस	तक. सहायक-ग	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी
2.	संगीता के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी (पदोन्नति की तिथि 27.3.06)

1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कुमारी			
3. रवि प्रकाश एस.वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसबी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	
4. रामबाबू टी.वी.एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	
5. जेम्स एम.पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	
6. चन्द्रशेखर मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	
7. सुब्रमणियन पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
8. सुरेन्द्रन एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	
9. निर्मला एम.वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसबी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	
10. मैलूवाहना भूपति बी.ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
11. श्रीकांता सी.वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	
12. प्रभाकर वर्णा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	
13. सुरेश के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	
14. रमेश ए.एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	
15. रमेश आर.टी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसबी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	
16. श्रीराम कुमार यू. वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	
17. श्रीनिवास राव जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	
18. शालिनी मैया पी.आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
19. बोम्मे गोडा एच.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
20. शीला पी.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
21. अनंतन ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
22. सत्यनारायणा वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
23. वेंकटेश्वरन आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	
24. श्रीराम एन. भट्ट	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	
25. प्रसाद बाबू आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसबी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	
26. इवान साहा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	
27. जसविंदर सिंह खोरल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	
28. अब्दुल हमीद एच.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	
29. सुरेन्द्रनाथ पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसबी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	
30. रमेश गुप्ता के.वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	
31. रविराज एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	
32. शाजी वी. सेबास्टीन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	
33. कृष्ण प्रिया जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	
34. डॉ. सरत कुमार दास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	
35. अभिषेक कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	
36. रवि चन्द्र बाबू जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	
37. डॉ. श्रीकुमार पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	
38. गौरीमणी एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	
39. जगदेवी पाटिल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	
40. अनुराधा जोशी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	

1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कुमारी			
41. प्रभाकरन बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
42. शीला के.वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
43. अनुराधा एस. प्रकाश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
44. रेहाना बेगम पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
45. सविता एच.एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
46. बाबू आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
47. भानू एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	
48. डॉ. अरविंद कुमार एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
49. राहुल मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
50. एवांगेलिन लीजा जस्टीन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
51. पंकज के. लंगोटे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
52. सिंहाचला राव चिक्काला	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
53. सतीश चन्द्र आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
54. विश्वनाथ श्रीवाणी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
55. सुभाष यादव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
56. थाकर ललित कणा जे.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
57. पुनित कुमार मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
58. श्रीविद्या जी.के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
59. मुहम्मद इतियास पाषा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
60. रणधीर राज	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
61. प्रशांत कुमार बैसानी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
62. अनिल कुमार एम.ए.एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
63. विवेक आर. सुब्रमणियन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
64. कल्पना बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
65. शिवरेड्डी देवरेड्डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
66. स्वाती सिंह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
67. गायत्री एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	
68. एस. बालदंडपाणी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2007

सं. 20/जी/2912-प्रशा. 1-- राष्ट्रपति, श्री विवेक मेहरोत्रा, भा.प्र.से. (हरियाणा: 74), को गृह मंत्रालय में अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार (एच.) के रूप में दिनांक 01 अक्टूबर 2007 के अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

ओ.पी. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. 20/जी/2913-प्रशा. 1-- राष्ट्रपति, श्री आर.पी.नाथ,के.स.से. (1974), को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 9 अक्टूबर 2007 के अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

ओ.पी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर 2007

सं. 14031/1/2007-यूटीएस-- अरुणाचल प्रदेश-गोवा मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त संवर्ग के 1971 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री ललित शर्मा, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, 30 सितम्बर, 2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी.के. गुप्ता, अवर सचिव

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2007

सं. 12013/14/2005-रा.भा. (का.-1)-- राष्ट्रपति सहर्ष डॉ. मोतीलाल गुप्ता को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 27.08.2007 (अपराह्न) से तीन वर्ष अथवा अगले आदेशों, इन दोनों में जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर उप निदेशक (कार्यान्वयन) नियुक्त करते हैं।

श्रीमती सरोज जैसिया, अवर सचिव

सं. 12013/14/2005-रा.भा. (का.-1)-- राष्ट्रपति सहर्ष डॉ. वी. बालाकृष्णन को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 03.09.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष अथवा अगले आदेशों, इन दोनों में जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर उप निदेशक (कार्यान्वयन) नियुक्त करते हैं।

श्रीमती सरोज जैसिया, अवर सचिव

सं. 12013/14/2005-रा.भा. (का.-1)-- राष्ट्रपति सहर्ष डॉ. सरोज कुमार त्रिपाठी को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 12.09.2007 (अपराह्न) से तीन वर्ष अथवा अगले आदेशों, इन दोनों में जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर उप निदेशक (कार्यान्वयन) नियुक्त करते हैं।

श्रीमती सरोज जैसिया, अवर सचिव

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. 14/1/2007-प्रशा. 1-- राष्ट्रपति, श्रीमती जयश्री मुखर्जी, भा.प्र.से. (एम.टी. : 86) को दिनांक 08.10.2007 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की अवधि

के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र नय्यर, उप सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) स्थापना

सं. 57/फा.सं. ए-38012/17/2007-प्रशा. II-- राष्ट्रपति, श्री धनेन्द्र सिंह, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, विशाखापटनम-I आयुक्तालय, विशाखापटनम के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को दिनांक 2.10.2007 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. ए-12011/6/2007-प्रशा. I ए-- राष्ट्रपति, श्री ए. अरुमुघम को 5 सितम्बर, 2007 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर किसी पदधारी की नियुक्ति किए जाने तक, जो भी पहले हो, 7,450-225-11,500/-रु. के वेतनमान में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुभाग अधिकारी (बाह्य), के समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

सं. ए-12011/6/2007-प्रशा. I ए-- राष्ट्रपति, श्री नीलकांतन आर. को 1 अक्टूबर, 2007 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर किसी पदधारी की नियुक्ति किए जाने तक, जो भी पहले हो, 7,450-225-11,500/-रु. के वेतनमान में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुभाग अधिकारी (बाह्य), के समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

सं. ए-15012/2/2005-डीआरटी-- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अपर सरकारी अधिकारिता, कानून एवं न्याय मंत्रालय, को 17 सितम्बर, 2007 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की

अवधि के लिए अथवा उनकी 62 वर्ष की आयु होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, कोलकाता, के पद पर नियुक्त किया है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2007

सं. ए-19011/272/2007-स्थापना-1--राष्ट्रपति, श्री ए.के. कक्कड़, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (12,000-16,500/-रुपए), सीएसएसएस, को 25 सितम्बर 2007 के पूर्वाह्न से वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में नियुक्त करते हैं।

एस.पी.एस. सांगवान, अवर सचिव

दिनांक 10 अक्टूबर 2007

सं. ए-32014/1/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री गुरुमुख एस. तनेजा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित आशुलिपिक ग्रेड "सी" को आशुलिपिक ग्रेड "ए और बी" (विलयित) के ग्रेड में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर दिनांक 5.10.2007 पूर्वाह्न से 31.12.2007 तक अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों के अधधीन निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं:--

- (i) इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा के. सं. आ. से के आशुलिपिक ग्रेड "ए और बी" (विलयित) (निजी सचिव) के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

एस.पी.एस. सांगवान, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. ए-32011/4/2004-प्रशा. 1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.08.2007 के का. ज्ञा. सं. 5/2/2006-सीएस. 1 (डेस्क) के द्वारा वर्ष 2001 एवं 2002 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की चयन सूची में समावेश के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित आधार पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सीएसएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में प्रत्येक के लिए उल्लेख की गई तारीख से अगले आदेश तक, नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं. अधिकारी का नाम		नियुक्ति की तारीख
1	2	3
1.	श्री पी. सी. प्रतिहारी	01.07.2001 (चयन सूची वर्ष 2001 के सीएसएसएस सं. 4025)

1	2	3
2.	श्री बी. के. मेहता	01.07.2002 (चयन सूची वर्ष 2002 के सीएसएसएस सं. 4107)
3.	श्री एन. के. विग	01.07.2002 (चयन सूची वर्ष 2002 के सीएसएसएस सं. 4113)

2. नियुक्ति, डीओपीटी के का. ज्ञा. सं. 5/2/2006 सीएस.1 (डेस्क), दिनांक 20.08.2007 में उल्लेख किए गए शर्तों द्वारा शासित होगी।

आर.सी. टली, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 13 सितम्बर 2007

सं. ए-12023/4/2006-प्रशा. IV--राष्ट्रपति, महानिदेशक के कार्यालय, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर निदेशक के रूप में श्री सुनील बर्थवाल, भा.प्र.से. (बिहार : 1989) के कार्यकाल में 18 जुलाई 2008 की अवधि तक के लिए विस्तार करते हैं।

पी.सी. प्रतिहारी, अवर सचिव

सं. ए-12023/7/1996-प्रशा. IV (पी.टी.)--राष्ट्रपति, महानिदेशक के कार्यालय, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (डीजी, सीसीआई) में श्री के.के. शर्मा, निदेशक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को अपर महानिदेशक के रूप में 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 4 जून, 2007 के अपराह्न से प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

पी.सी. प्रतिहारी, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2007

सं. ए-32014/1/2006-संवर्ग--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.11.2006 और 20.09.2007 के का. ज्ञा. सं. 5/5/98/सी.एस.-II के अनुपालन में राष्ट्रपति जी सी.एस.एस.एस. की ग्रेड "सी" आशुलिपिक श्रीमती प्रोमिला को वर्ष 1998 के सी.एस.एस.एस., की आशुलिपिक ग्रेड 'ए' और 'बी' (विलयित) की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने पर इस विभाग में 17/09/2001 से सी.एस.एस.एस. के आशुलिपिक ग्रेड 'ए' और 'बी' (विलयित) ग्रेड पर नियुक्त करते हैं।

इस विभाग की दिनांक 14.06.99 की जारी उस अधिसूचना सं. ए-32014/2/96-संवर्ग को एतद्वारा रद्द किया जाता है जिसके द्वारा सी. एस.एस.एस. की निजी सहायक (ग्रेड 'सी') श्रीमती प्रोमिला को चयन सूची 1997 (वरीयता कोट) पर दिनांक 10.06.1999 की पूर्वाह्न से इस विभाग में सी.एस.एस.एस. के आशुलिपिक ग्रेड 'ए' और 'बी' (विलयित) पर नियुक्त किया गया था।

जोस थॉमस, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2007

सं. 21/2007 (फा. सं. 51/1/2005/मा.सं.वि.-1/4731)--राष्ट्रपति, भारतीय व्यापार सेवा के ग्रेड-I (वेतनमान 12,000-375-16,500/- रु.) अधिकारी श्री अनेश्वर सेन, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार को दिनांक 27.06.2007 से गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (वेतनमान 14,300-400-18,300/- रु.) प्रदान करते हैं।

अदिति दास राऊत, संयुक्त महानिदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. ए-2001/13/90 स्था.1--पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्री शोभन दास द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर वे 31 अगस्त, 2007 अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 7 सितम्बर 2007

सं. ए-1201/1/5/2007 स्था.1--राष्ट्रपति, श्री दीपेन्द्र पाठक, भा.पु.से. (यू टी : 90) को 7.9.2007 के पूर्वाह्न से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 5 वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त करती हैं।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. ए-2201/1/5/2007 स्था.--राष्ट्रपति, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) संवर्ग के स्थाई सहायक (तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत) श्री ए. के. तेहलान, जिन्हें वर्ष 2003 के वरिष्ठता कोट के लिए अनुभाग अधिकारियों ग्रेड की चयन सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया गया है, को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में 10.09.2007 से आगामी आदेशों तक, नियमित आधार पर, अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी.एस. वर्मा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. ए-38015/2/2007-स्था.--वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय की सामान्य सेवाओं के ग्रुप "क" अधिकारी श्री पी.के. सरदार, मुख्य निदेशक और खाद्य तेल आयुक्त सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर

दिनांक 30 सितम्बर, 2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त माने जाएंगे।

एस.के. बधवा, उप निदेशक (प्रशासन)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली 110 003, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. मविवि/44 स्था/48/96--कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 सितम्बर, 2007 के आदेश सं. 3/2/2006 सीएस. I के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री पी. नारायणन, उप सचिव को वर्ष 2003 की उपयुक्तता सूची के अनुसार 26.09.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. ए-32012/2/2001-पी-II--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 अगस्त, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2006 सी एस. II के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्रेणी 'ग' के निम्नलिखित आशुलिपिकों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक (निजी सचिव के रूप में पद नामित) को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 31.08.2007 से शुरुआत में तदर्थ आधार पर 31.12.2007 की अवधि तक अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिवों की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

- (i) श्री बी. के. खुराना
- (ii) श्री महेन्द्र कुमार
- (iii) सुश्री सुनीता इलावार्दी
- (iv) श्री रूप किशोर (अनुसूचित जाति)

2. ये तदर्थ पदोन्नतियाँ/नियुक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर करती हैं--

- (i) इस तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक उस श्रेणी में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति चयन सूची शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'क', 'ख' (संविलीन) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (ii) तदर्थ नियुक्तियाँ, बिना कारण बताएँ कभी भी समाप्त की जा सकती हैं।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

दिनांक 4 अक्टूबर 2007

सं. ए-32012/2/2001-पी-II.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 सितम्बर, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2006 सी एस. II के अनुपालन में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के श्री पी. के. मेहना को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, आशुलिपिक श्रेणी 'क' एवं 'ख' (संविलीन) (निजी सचिव के रूप में पद नामित) को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 20.09.2007 (अपराह) से प्रारम्भ में 31.12.2007 तक की अवधि तक तदर्थ आधार पर अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगी।

- (i) इस तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति को अनिश्चित काल तक उस श्रेणी में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति चयन सूची शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'क' 'ख' (संविलीन) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति बिना कारण बताएं कभी भी समाप्त की जा सकती है।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

सं. ए-32012/2/2001 पी-II(.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 अगस्त, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2006 सी एस. II के अनुपालन में, वस्त्र मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के श्री राजेन्द्रन ए. आर. को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, आशुलिपिक श्रेणी 'क' एवं 'ख' (संविलीन) (निजी सचिव के रूप में पद नामित) को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 20.09.2007 (पूर्वाह) से प्रारम्भ में 31.12.2007 तक की अवधि तक तदर्थ आधार पर अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगी।

- (i) इस तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति को अनिश्चित काल तक उस श्रेणी में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति चयन सूची शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'क' 'ख' (संविलीन) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति, बिना कारण बताएं कभी भी समाप्त की जा सकती है।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 21 सितम्बर 2007

सं. ए-19011/10/2007-आई.एफ.एस-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के उत्तराखंड संवर्ग के 1983 बैच से संबंधित अधिकारी श्री अंशोक को दिनांक 20.09.2007 के पूर्वाह से 20 जनवरी, 2010 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

बलदेव राज
अवर सचिव

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 27 सितम्बर 2007

सं. 18014/02/2006-आई.एफ.एस-II--भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता विनियमन) नियमावली, 1997 के नियम 3 (3) (ii) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा भारतीय वन सेवा में केरल संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारी श्री वी वी शाजीमोन की वरिष्ठता/आबंटन वर्ष, उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से निर्धारित करती है:--

क्र.सं. अधिकारी का नाम	चयन सूची वर्ष	आबंटन का वर्ष
1. श्री वी वी शाजीमोन	1994-95	1991

2. भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता विनियमन) नियमावली 1997 के अनुसार उनकी वरिष्ठता संबंधित बैच के सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुए सबसे कनिष्ठ अधिकारी से नीचे के क्रम में निर्धारित की जाएगी।

बी.सी. बेहरा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2007

सं. ए-31013/04/2007-सी.एच.एस.V--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेत्तर उप-संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड में अधिष्ठाई रूप से नियुक्त करते हैं:--

स्पेशियलिटी

क्र.सं. अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख	स्थायीकरण की तारीख
1. डॉ. (श्रीमती) सरिता भल्ला	फार्माकोलाजी 29.05.2002	29.05.2003
2. डॉ. आर. के. श्रीवास्तव	प्लास्टिक-सर्जरी 14.11.98	14.11.99

सी.एस. मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2007

सं. ए-12025/43/2006-सी.एच.एस.IV--राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) रजनी सेजपाल को 17 जुलाई, 2007 पूर्वाह से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेत्तर

विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड II (जैव-रसायन) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2007

सं. ए-38012/1/2007-सी.एच.एस.1--केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-क के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के परिणामस्वरूप सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन एफ एस जी) डॉ. शेनॉय राबिंसन ने 01 अगस्त 2007 (पूर्वाह्न) को कार्यभार छोड़ दिया।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. 32011/2/2007 स्था-II--राष्ट्रपति डॉ. अनिल प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त (फसल) को दिनांक 17 सितम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा छह महीने की अवधि के लिए इनमें से जो भी पहले हो तदर्थ आधार पर 12,000--16,500/-रु. के वेतनमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग में उपायुक्त (फसल) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2007

सं. 2-1/2005 बाग. IV--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति श्री वेंकटेश एन. हुब्बाली, नियमित उप निदेशक (विकास) को पदोन्नति होने पर 12,000-375-16,500/-रु. के संशोधित वेतनमान में 23 जुलाई, 2007 से कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अधीन काजू एवं कोका विभाग, कोचीन निदेशालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस.आर. गोयल, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. ए 19012/5/2000 प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री शंकर लक्ष्मण, सहायक आयुक्त (मत्स्यन बंदरगाह) के उपायुक्त (मत्स्यन बंदरगाह) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि को 4.08.2007 से 03.02.2008 तक छः महीनों के लिए या नियमित पदधारी के आने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

पी.एल. मीना, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. ए-12022/1/2007-स्था. I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 जुलाई, 2007 के आदेश सं. 5/6/2007-सीएस. I (डेस्क) के अनुसरण में, श्री आर. कं. सूद को 31 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से, 10,000-325-15,200 रु. के वेतनमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर यह नियुक्ति, दिनांक 25 जुलाई, 2007 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय आदेश सं. 5/6/2007 सी एस. I (डेस्क) में अन्तर्विष्ट शर्तों के अधीन होगी।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. ए-12022/6/2007 स्था. I--राष्ट्रपति, श्री वासु मित्रा अरोड़ा, भारतीय वन सेवा (उत्तर प्रदेश : 85) को ग्रामीण विकास मंत्रालय में 28.08.2007 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

सं. ए-12024/7/2005-स्था. III -कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जुलाई, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2006 सीएस. II तथा 31 जुलाई, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2006 सीएस-II (i) के अनुपालन में राष्ट्रपति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव श्री पी.आर. गांधी को दिनांक 8.8.2007 (पूर्वाह्न) से 31.12.2007 तक अथवा अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर 10,000--15,200/- रु. के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह इस मंत्रालय की दिनांक 3 अगस्त 2007 की समसंख्यक अभिसूचना के अधिक्रमण में है।

के.के. मिश्रा, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

सं. 3-5/2007-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 सितम्बर, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 27/30/2007 इ.ओ. (एस.एम.1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, डॉ. (श्रीमती) किरन चड्ढा, के.स.से. को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दिनांक 01.10.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश

तक 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

महेश अरोड़ा, निदेशक (प्रशासन)

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2007

सं.ए.-19011/12/2006-स्था. I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 अगस्त, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/2/2006 सी.एस. I (डेस्क) के जरिए केंद्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) ग्रेड-I में नियुक्ति के लिए वर्ष 2001 की चयन सूची में श्री आर. वैद्यनाथन का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री आर. वैद्यनाथन, नियमित अनुभाग अधिकारी को दिनांक 01.07.2001 से नियमित आधार पर सी एस एस (अवर सचिव) के ग्रेड-I में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री आर. वैद्यनाथन, अवर सचिव की नियुक्ति, अनुमोदित सेवा के लिए दिनांक 01.07.2001 से प्रभावी मानी जाएगी।

यह नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल सिविल रिट याचिका संख्या 3269/2003, 3912/2003 व 13352/2005 के संबंध में अंतिम निर्णय आने पर निर्भर होगी।

ए. मुरुगैयन, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 8 अक्टूबर 2007

सं. 3 (3)/2006 का. I--राष्ट्रपति जी ने इस विभाग के वैज्ञानिक 'डी', श्री अनिल कुमार पिपल (कर्मचारी कोड सं. 223) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 28.09.2007 के अपराह्न से वैज्ञानिक 'ई' नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

सं. 0540/एनआईसी/2007-प्रशा. II--श्रीमती सरोजा कृष्णामूर्ती, अनुभाग अधिकारी, (कर्मचारी कोड सं. 0540) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय नई दिल्ली से दिनांक 30 सितम्बर, 2007 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त हुए हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी.एस. पिल्लै, उपनिदेशक (प्रशा. II)

मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण निदेशालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 27 अगस्त 2007

शुद्धिपत्र

सं. 2(2)/2007-पी.ए.--निजी सचिव की नियुक्ति से सम्बन्धित सम-संख्यक अधिसूचना दिनांक 26.06.2007 के संदर्भ में श्री वी. राजेन्द्रन क्रमांक 1 के आगे अंकित प्रयोगशाला/केन्द्र के नाम को ई.टी.डी.सी., हैदराबाद के स्थान पर सी.एफ.आर. चैन्नई पढ़ा जाए।

सतवीर सिंह, उपनिदेशक

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2007

सं. ई आर बी-I/2007/2/55--श्री मो. इरशाद, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भा. रे.या.इं.से., सलाहकार (या. इंजी.) रेलवे बोर्ड को 20.09.2007 के पूर्वाह्न से 24,050--26,000/-रु. के ग्रेड में अपर सदस्य (यां. इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. 24/2007, फा. सं. 2/9/2006 प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री श्रीकान्त पांडा, आईपी एवं टीए एवं एफएस (88), को 5 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर जल संसाधन मंत्रालय में दिनांक 09.10.2007 के पूर्वाह्न से 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं। इस मंत्रालय में उनका शेष सेवाकाल 08.10.2012 तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगा।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

सं. 25/2007, फा. सं. 22/603/2007 प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री राजीव कुमार अरोड़ा, आईआरपीएस (92), उप सचिव, जल संसाधन मंत्रालय को दिनांक 17.08.2007 के पूर्वाह्न से 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में इस मंत्रालय में, व्यक्तिगत तौर पर उनके यहां रहने तक, जल संसाधन मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं। इस मंत्रालय में उनका शेष सेवाकाल 16.08.2012 तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगा।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. 8/5/2005-प्रशा. II--राष्ट्रपति, प्रसार भारती (दूरदर्शन महानिदेशालय) में तैनात सूचना और प्रसारण मंत्रालय की केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव श्री जेम्स के. जॉन द्वारा दिए गए सरकारी सेवा से उनके त्यागपत्र को दिनांक 26 सितम्बर 2007 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं।

2. यह त्यागपत्र सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26 (1) के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

राम फल, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2007

सं. ए-11013/6/2005-डीडी 1 ए--दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्द्वारा श्री संजीव सेनगुप्ता, वरिष्ठ वास्तुकार, सीपीडब्ल्यूडी को 14,300--18,300/- रुपये के वेतनमान में दिल्ली नगर कला आयोग के सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 31.05.2009 तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

एन.टी. जोसेफ, अवर सचिव (डीडी 1ए)

सं. के.-11011/14/2003-डीडीए 1 ए--राष्ट्रपति द्वारा श्री एच. गजेश प्रसाद, आईएएस (यूटी : 95) को दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप सचिव स्तर पर आयुक्त (भूमि प्रबंधन) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एन.टी. जोसेफ, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2007

सं. ए-11011/2/2006-यूडी-1--संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति की ओर से श्री नरेश कुमार धीरान, एसोसिएट नगर एवं ग्राम नियोजक को पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक के लिए 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में नगर एवं ग्राम नियोजक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एच.के. कांडपाल, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 4th October 2007

No. RS/3(i)/2007/112-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following Assistant Directors in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director on regular basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders :—

1. Shri P. Narayanan
2. Dr. (Smt.) Subhashree Panigrahi
3. Shri Ajaya Kumar Mallick

2. The above appointments would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

C. B. RAI, Joint Director

No. RS/3(i)/2007/113-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following Senior Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistants in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on ad-hoc basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders :—

1. Kum. Chitra G.
2. Shri Amit Kumar
3. Shri Thangzalun Khuptong

2. Smt. Rashmi Gupta, Shri Suresh B. Malkani and Shri Praveen Kumar, who were earlier appointed to officiate as Executive/Legislative/Committee/Protocol Officers on ad-hoc basis vide Notification No. RS/3(i)/2007/108-Perl. dated 21st September, 2007 have now been appointed on regular basis in that grade with immediate effect, until further orders.

3. The above appointments would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

C. B. RAI, Joint Director

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 28th March 2007

No. B. 22012/1/2005-III.—In exercise of the powers conferred by Sub section (2) of Section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (Act No. 19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act (except Section 6-A) shall apply to the Provident Funds established for the benefit of the employees of the North Eastern Space Applications Centre (NE-SAC), Shillong, and in exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of

Section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (Act No. 19 of 1925), the Central Government hereby adds the name of the "North Eastern Space Applications Centre, Shillong" to the Schedule to the said Act.

E. V. RAMANA REDDY, Director

Bangalore-560 094, the 5th July 2007

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Sh. N. Gnanbharaneedharan Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 14.06.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Sh. Darshan Havinal Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 26.10.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint Sh. Bhat Girish as Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 08.05.2006 and until further orders.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Dr. M. S. Suresh, Scientist/Engineer-G in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 2.08.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—Consequent on attaining the age of superannuation Dr. R. A. Katti, Scientist/Engineer-G in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 31.08.2007.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Smt. Shanthi Venkatesh, Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 1.11.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Sh. B. K. Shamaprakash, Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 03.08.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Smt. K. Veni Raman, Scientist/Engineer-SF in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 13.09.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Sh. J. N. Hemanth Kumar, Scientist/Engineer-SF in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 31.10.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Paripurna Nand Pandey, Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 23.10.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Prashanth Kumar Bysani, Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 21.12.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Dheeraj Lohani, Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 14.12.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Chayan Roy, Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 24.11.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Sanjay Jaiswal, Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 24.11.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Smt. M. Mahalakshmi, Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 24.07.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Debojyoti Choudhuri, Scientist/Engineer-SE in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 24.11.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Kum. Srividhya G. K., Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 28.07.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Dr. Bharat Khushalani, Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 25.08.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Kum. Sheeba Gandhi S., Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 08.08.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Sh. Dilip Gupta, Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 5.12.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Sh. Kundan Karma, Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 17.05.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Sh. Keshava Kumar S., Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 1.12.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint Shri Navaneetha Krishnan S. as Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 07.08.2006 and until further orders.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint Kum. Shilpa K. V. as Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 30.10.2006 and until further orders.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Sh. Naresh Varma D. Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 18.08.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar Gupta as Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 09.10.2006 and until further orders.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint Shri Kiran Desai as Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 17.08.2006 and until further orders.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint Smt. Anupama as Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 08.06.2006 and until further orders.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Smt. Vandana Singh, Scientist/Engineer-SD (3595) in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 11.08.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—Consequent on attaining the age of superannuation Sh. K. C. Navada, Scientist/Engineer-H in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 31.07.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Sh. R. Venkatesa, Scientist/Engineer-SF in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 05.07.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—Consequent on attaining the age of superannuation Sh. G. Subramanian, Scientist/Engineer-SG in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 31.10.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Dr. P. Venkateswaralu, Scientist/Engineer-SF in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 10.07.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Sh. Vinod Narayanrao Bagi Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 30.06.2006.

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

The August 2007

No. 5/1(1)/2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2006 and until further orders :

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
Shri/Smt./Kum.			
1.	Rajangam R. K.	Scientist/Engineer-H	Outstanding Scientist
2.	Seshaiah R.	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
3.	Koteswara Rao V.	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
4.	Pichayya B.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
5.	Kalyan Kumar K.G.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
6.	Vasanth Kumar U.N.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
7.	Subhalakshmi Krishnamoorthy	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
8.	Ravindra Babu T.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
9.	Venkateswara Sharma S.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
10.	Dr. Anil Agarwal	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
11.	Aswathnarayan S.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
12.	Sagayaraj D.K.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
13.	Radhika S.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
14.	Kunhikanna Achary K.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
15.	Sharadhadevi Prakash	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
16.	Ravichandran V.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
17.	Dayashankara K. S.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
18.	Satyanarayana	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
19.	Raghuraman A.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
20.	Prasanta K. Poddar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
21.	Manjunatha A.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
22.	Ramesh Babu Raj S.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
23.	Srinivasa H. L.	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC

K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO HQ, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 01.01.2006 and until further orders :—

Sl. No.	Name	From	Designation	To
1	2	3	4	
Shri/Smt./Kum.				
1.	Jissy Varghese	TA-C	Scientist/Engineer-SC	
2.	Sangeetha K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC (27.03.06)	
3.	Ravi Prakash S.V.	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC	
4.	Rambabu T.V.S.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SF	

1	2	3	4
5.	James M. P.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
6.	Chandrashekhar Mishra	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
7.	Subramanian P.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SF
8.	Surendran N.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
9.	Nirmala M. V.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
10.	Myluvahana Bhoopathy B. A.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
11.	Sreekantha C. V.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SC
12.	Prabhakara Varna	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
13.	Suresh K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
14.	Ramesh A. S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
15.	Ramesha R. T.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
16.	Sree Ram Kumar U. V.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
17.	Srinivas Rao G.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
18.	Shalini Maiya P. R.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
19.	Bomme Gowda H.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
20.	Sheela P. C.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
21.	Ananthan A.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
22.	Satyanarayana V.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
23.	Venkateswaran R.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
24.	Shriram N. Bhar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
25.	Prasad Babu R.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
26.	Ivan Saha	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
27.	Jasvinder Singh Khoral	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
28.	Abdul Hameed H.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
29.	Surendranath P.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
30.	Ramesh Gupta K. V.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SF
31.	Raviraj N.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
32.	Shaji V. Sebastin	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
33.	Krishna Priya G.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
34.	Dr. Sarat Kumar Das	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
35.	Abhishek Kumar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
36.	Ravi Chandra Babu G.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
37.	Dr. Sreekumar P.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-C
38.	Gowrimani S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
39.	Jagadevi Patil	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
40.	Anuradha Joshi	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
41.	Prabakaran B.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
42.	Shila K. V.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
43.	Anuradha S. Prakasha	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
44.	Ryhana Begum P.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
45.	Savitha H. M.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
46.	Babu R.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
47.	Bhanu M.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SC
48.	Dr. Aravind Kumar M.	Med. Off. SC	Med. Off. SD
49.	Rahul Mishra	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
50.	Evangelin Leeja Justin	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

1	2	3	4
51.	Pankaj K. Langote	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
52.	Simhachala Rao Chikkala	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
53.	Sateesh Chandran R.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
54.	Viswandadha Srivani	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
55.	Subash Yadav	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
56.	Thakar Lalitkrushna J.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
57.	Puneet Kumar Mishra	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
58.	Srividhya G. K.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
59.	Mahammad Intiyas Pasha	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
60.	Randhir Raj	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
61.	Prasanth Kumar Bysani	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
62.	Anil Kumar M.A.S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
63.	Vivek R. Subramanian	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
64.	Kalpana B.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
65.	Sivareddy Devireddy	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
66.	Swati Singh	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
67.	Gayathri M.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
68.	S. Balachandapani	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
K.S. RAMACHANDRA, Deputy Secy.			

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th October 2007

No. 20/G/2912-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri Vivek Mehrotra, IAS (HY : 74), as Additional Secretary and Financial adviser (H) in the Ministry of Home Affairs with effect from the afternoon of 1st October, 2007.

O. P. SHARMA, Under Secy.

The 11th October 2007

No. 20/G/2913-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri R. P. Nath, CSS (1974), as Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 9th October, 2007.

O. P. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-1, the 12th October 2007

No. 14031/1/2007-UTS—On attaining the age of superannuation, Shri Lalit Sharma, Indian Administrative Service Officer of 1971 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 30th September, 2007.

V. K. GUPTA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 9th October 2007

No. 12013/14/2005-OL(Impl.-I)—The President is pleased to appoint Dr. Motilal Gupta as Deputy Director (Implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on deputation basis with effect from 27.8.2007 (A.N.) for a period of three years or till further orders whichever is earlier.

(Smt.) SAROJ JAISIA, Under Secy.

No. 12013/14/2005-OL(Impl.-I)—The President is pleased to appoint Dr. V. Balakrishnan as Deputy Director (Implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on deputation basis with effect from 3.9.2007 (F.N.) for a period of three years or till further orders whichever is earlier.

(Smt.) SAROJ JAISIA, Under Secy.

No. 12013/14/2005-OL(Impl.-I)—The President is pleased to appoint Dr. Saroj Kumar Tripathi as Deputy Director (Implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on deputation basis with effect from 12.9.2007 (A.N.) for a period of three years or till further orders whichever is earlier.

(Smt.) SAROJ JAISIA, Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 11th October 2007

No. 14/12/2007-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Jayashree Mukherjee, IAS (MT : 86) as Joint Secretary in the Ministry of Development of North Eastern Region w.e.f. 08.10.2007 (Forenoon) for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. K. NAYYAR, Deputy Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 1st October 2007

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS &
CENTRAL EXCISE)
ESTABLISHMENTS

No. 57 (F. No. A-38012/17/2007-Ad. II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri Dharmendra Singh, Assistant Commissioner of Central Excise, Visakhapatnam-I Commissionerate, Visakhapatnam with effect from 02.10.2007 (AN).

ALOK AGARWAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 10th October 2007

No. A-12011/6/2007-Ad. IA—The President is pleased to appoint Shri A. Arumugham to the post of Section Officer (Excluded), Group "B" Gazetted Ministerial in the pay scale of Rs. 7450-225-11500/- on ad hoc Deputation basis for a period of one year w.e.f. 5th September, 2007 (FN) or until an incumbent is appointed on regular basis, whichever is earlier.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 11th October 2007

No. A-12011/6/2007-Ad. IA—The President is pleased to appoint Shri Neelakantan R. to the post of Section Officer (Excluded), Group "B" Gazetted Ministerial in the pay scale of Rs. 7450-225-11500/- on ad hoc Deputation basis for a period of one year w.e.f. 1st October, 2007 (FN) or until an incumbent is appointed on regular basis, whichever is earlier.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 1st October 2007

No. A-15012/2/2005-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri Surendra Kumar Sharma, Additional Government Counsel, Ministry of Law and Justice as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal-II, Kolkata, for a period of five years with effect from 17th September, 2007 (F.N.) or till he attains the age of 62 years, or until further orders, whichever is the earliest.

A. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, the 8th October 2007

No. A-19011/272/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Shri A.K. Kakkar, Senior Principal Private Secretary (Rs. 12,000—16,500/-) of CSSS in the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 25th September, 2007.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

The 10th October 2007

No. A-32014/1/2006-Estt.—The President is pleased to appoint the Shri Gurmukh S. Taneja, regular Steno Grade 'C' of CSSS, to the Grade of Steno Grade 'A&B' (merged) as Private Secretary in Department of Financial Services, Ministry

of Finance in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- on ad-hoc basis with effect from forenoon of 5.10.2007 and upto 31.12.2007 or until further orders, whichever is earlier, subject to the following terms and conditions :—

- (a) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of Steno Grade 'A & B' (Merged) (PS) of CSSS.
- (b) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 10th September 2007

No. A-32011/4/04-Ad. I—Consequent upon their inclusion in the Select Lists for the years 2001 & 2002 of Grade-I of Central Secretariat Service vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/2/2006-C.S. 1 (Desk) dated 20.8.2007, the President is pleased to appoint the following officers of the Ministry of Corporate Affairs to the Grade-I of CSS (Under Secretaries) on regular basis with effect from the date mentioned against each and until further orders:—

S. No.	Name of the officer	Date of appointment
1.	Sh. P. C. Pratihari	01.07.2001 (CSL No. 4025 of Select List Year 2001)
2.	Sh. V. K. Mehta	01.07.2002 (CSL No. 4107 of Select List Year 2002)
3.	Sh. N. K. Vig	01.07.2002 (CSL No. 4113 of Select List Year 2002)

2. The appointment will be governed by the conditions mentioned in the DOPT's O.M. No. 5/2/2006-CS.1 (Desk) dated 20.8.2007.

R. C. TULLY, Under Secy.

New Delhi-110001, the 13th September 2007

No. A-12023/4/2006-Ad. IV—The President is pleased to extend the tenure of Shri Sunil Barthwal, IAS (Bihar : 1989) as Director in the office of Director General, Competition Commission of India (CCI) on deputation basis for the period upto July 18, 2008.

P. C. PRATIHARI, Under Secy.

No. A-12023/7/96-Ad. IV (pt)—The President is pleased to appoint Shri K. K. Sharma, Director, Competition

Commission of India (CCI) as Additional Director General in the office of the Director General, Competition Commission of India (DG, CCI) in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/-, with effect from the afternoon of 4th June, 2007, on deputation basis for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

P. C. PRATHARI, Under Secy.

**MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
(SUPPLY DIVISION)**

New Delhi, the 8th October 2007

No. A-32014/1/2006-Cadre—In pursuance of the Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/5/98/CS. II dated 29.11.2006 and 20.9.2007. The President is pleased to appoint Smt. Promila, Stenographer Grade 'C' of CSSS to the grade of Stenographer Grade A&B (merged) of CSSS w.e.f. 17.09.2001 in this Department on inclusion of her name in the Select List of Steno Gr. A&B (merged) of the CSSS for the year 1998.

The Notification issued by this Department vide No. A-32014/2/96-Cadre dated 14.06.99 appointing Smt. Promila, Personal Assistant (Grade C) of CSSS to Steno of CSSS in the Department against Select List-1997 (Seniority Quota) w.e.f. 10.6.1999 (FN) is hereby cancelled.

JOSE THOMAS, Under Secy. (Cadre)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 8th October 2007

No. 21/2007 (F. No. 51/1/2005/HRD-I/4731)—The President is pleased to grant Non-functional Selection Grade (scale Rs. 14300-400-18300/-) to Shri Agneshwar Sen, Joint Director General of Foreign Trade, Grade-I of Indian Trade Service (Pay scale Rs. 12000-375-16500/-) with effect from 27.6.2007.

ADITI DAS ROUT, Jt. Director General of Foreign Trade

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 6th September 2007

No. A-20011/13/90-Estt.—On his attaining the age of superannuation Shri Shobhan Das, Section Officer in the Ministry of Petroleum & Natural Gas, stands retired from Government service w.e.f. the afternoon of 31st August, 2007.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 7th September 2007

No. A-12011/5/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Dependra Pathak, IPS (UT : 90) as Director in the Ministry of Petroleum and Natural Gas with effect from

the forenoon of 07.09.2007 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 12th September 2007

No. A-22011/5/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Tehlan a permanent Assistant (officiating as Section Officer on ad-hoc basis) of the Central Secretariat Service (CSS) cadre of the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, who has been found suitable for inclusion in the Select List of Section Officers, grade for the year 2003 against Seniority Quota, as Section Officer in the CSS cadre of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises on regular basis with effect from 10-9-2007, until further orders.

P. S. VERMA, Under Secy.

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)
DIRECTORATE OF VANASPATI, VEGETABLE OILS & FATS**

New Delhi-110 003, the 28th September 2007

No. A-38015/2/2007-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri P. K. Sardar, Chief Director-cum-Edible Oils Commissioner, a Group 'A' Officer of General Central Services of Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils & Fats will stand retired from Government Service w.e.f. the afternoon of 30th September, 2007.

S. K. WADHWA, Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 11th October 2007

No. DOD/44-Estt./48/96—In pursuance of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training order No. 3/2/2006-CS. I dated 25th September, 2007 President is pleased to appoint Shri P. Narayanan, Deputy Secretary as Director against the Suitability List for the year 2003 and taken in the strength of the Ministry of Earth Sciences as Director in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- w.e.f. 26.9.2007 (F.N.) until further orders.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi, the 6th September 2007

No. A-32012/2/2001-P. II (.)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/8/2006-CS. II dated 9th August, 2007, the President is pleased to

appoint the following Stenographers 'Grade 'C' of CSSS cadre of the Ministry of Environment & Forests as Private Secretaries in the scale of pay Rs. 6500-200-10500/- in this Ministry on ad hoc basis with effect from 31.8.2007, initially for the period upto 31.12.2007 or till regular Private Secretaries of CSSS become available, whichever is earlier :—

- (i) Shri V. K. Khurana
- (ii) Shri Mahender Kumar
- (iii) Ms. Sunita Elawadhi
- (iv) Shri Roop Kishore (SC)

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (merged) (PS) of CSSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

PREMA MOHAN, Under Secy.

The 4th October 2007

No. A-32012/2/2001-P. II (.)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/8/2006-CS. II dated 18th September, 2007, the President is pleased to appoint Shri P. K. Mahna, Stenographers 'Grade 'C' of CSSS cadre of the Ministry of Information & Broadcasting as Steno Grade 'A' & 'B' (merged) (Designated as Private Secretary) of CSSS in the Ministry of Environment & Forests, in the scale of pay Rs. 6500-200-10500/- w.e.f. 20.09.2007 (A.N.) on ad hoc basis initially for the period upto 31.12.2007 or till regular Private Secretary of CSSS become available, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (iii) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (merged) (PS) of CSSS.
- (iv) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

PREMA MOHAN, Under Secy.

No. A-32012/2/2001-P. II (.)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/8/2006-

CS. II dated 9th August, 2007, the President is pleased to appoint Shri Rajendran A.R., Stenographers 'Grade 'C' of CSSS cadre of the Ministry of Textiles as Steno Grade 'A' & 'B' (merged) (Designated as Private Secretary) of CSSS in the Ministry of Environment & Forests, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- w.e.f. 20.09.2007 (F.N.) on ad hoc basis initially for the period upto 31.12.2007 or till regular Private Secretary of CSSS becomes available, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (v) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (merged) (PS) of CSSS.
- (vi) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

PREMA MOHAN, Under Secy.

New Delhi-110 003, the 21st September 2007

No. A. 19011/10/2007-IFS-I—The President is pleased to appoint Shri Ashok, an officer belonging to the 1983 batch of Uttarakhand cadre of the Indian Forest Service, to the post of Joint Director in the Wildlife Crime Control Bureau under the Ministry of Environment and Forests in the pay scale of 16400-450-20000/- with effect from the forenoon of 20-09-2007 for the period upto 20th January, 2010 or till further orders.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi-110003, the 27th September 2007

No. 18014/02/2006-IFS-II—In exercise of the powers conferred by rule 3(3)(ii)(a) of the Indian Forest Service (Regulation of Seniority) Rules, 1997, the Central Government hereby determine the Seniority/year of allotment of Shri V. V. Shajimon, Indian Forest Service Officer, borne on Kerala Cadre in the Indian Forest Service with effect from the date mentioned against his name :—

Sl. No.	Name of the officer	Select list year	Year of Allotment
1.	Shri V. V. Shajimon	1994-95	1991

2. He will be placed below the junior most direct recruit officer of the concerned batch as per IFS (Regulation of Seniority) Rules, 1997.

B. C. BEHERA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 8th October 2007

No. A-31013/4/2007-CHS-V—The President is pleased to appoint substantively the following officers in the Specialist Grade-II of Non-Teaching sub-cadre of the Central Health Service, with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the officer	Speciality	Date of Appointment	Date of Confirmation
	Shri/Smt.			
1.	Dr. Sarita Bhalla	Pharmacology	29.05.2002	29.05.2003
2.	Dr. R. K. Srivastava	Plastic-Surgery	14.11.1998	14.11.1999

C. S. MISHRA, Under Secy.

New Delhi, the 9th October 2007

No. A. 12025/43/2006-CHS. IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Rajni Saijpaul to the post of Specialist Grade II (Bio-Chemistry) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation as Specialist Grade II (Biochemistry) w.e.f. the forenoon of the 17th July 2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 9th October 2007

No. A. 38012/1/2007-CHS. I—Consequent upon voluntary retirement under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972, Dr. Shenoy Robinson, CMO (NFSG) of GDMO sub-cadre, Government of National Capital Territory of Delhi, relinquished the charge of the post on 01.08.2007 (F.N.).

(Smt.) MAYA PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 17th September 2007

No. 32011/2/2007-E-II—The President is pleased to appoint Dr. Anil Pratap Singh, Assistant Commissioner (Crops) in the Department of Agriculture & Cooperation as Deputy Commissioner (Crops) in the pay scale of Rs. 12000—16500/- on adhoc basis w.e.f. the forenoon of 17th September 2007 for a period of six months or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

K. SANJAYAN, Under Secy.

New Delhi, the 9th October 2007

No. 2-1/2005-Hort-IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased

to appoint Shri Venkatesh N. Hubballi, regular Deputy Director (Development), as Director in the revised scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- in the Directorate of Cashewnut & Cocoa Development, Cochin under the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture on promotion with effect from the forenoon of 23rd July, 2007.

S. R. GOYAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,
DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 28th September 2007

No. A-19012/5/2000-Admn. I—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Shankar Laxman, Assistant Commissioner (Fishing Harbour) as Deputy Commissioner (Fishing Harbour) for a period of six months from 04.08.2007 to 03.02.2008 or till the joining of the regular incumbent or until further orders, whichever is earlier.

P. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 7th August 2007

No. A-12022/1/2007-Estt. I—The President is pleased to appoint Sh. R. K. Sood as Under Secretary on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 31st July, 2007 in pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/6/2007-CS. I (Desk) dated 25th July, 2007.

2. The appointment as Under Secretary on ad-hoc basis is subject to the conditions as contained in Department of Personnel & Training's Order No. 5/6/2007-CS. I (Desk) dated 25th July, 2007.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

The 31st August 2007

No. A-12022/6/2007-Estt. I—The President is pleased to appoint Shri Vasu Mitra Arora, IFS (UP:85) as Director in the Ministry of Rural Development for a period of 5 years with effect from the forenoon of 28-08-2007 or until further orders, whichever event takes place earlier.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 1st October 2007

No. A-12024/7/2005-E-III—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/7/2006-CS. II

dated 5th July 2007 and O. M. No. 5/7/2006-CS-II(i) dated 31st July, 2007, the President is pleased to appoint Shri P. R. Gandhi, PS belonging to CSSS Cadre of Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development as Principal Private Secretary in the pay scale of Rs. 10000-15200/- on ad-hoc basis w.e.f. 08.08.2007 (forenoon) upto 31.12.2007 or until further orders.

This supercedes the Ministry's Notification of even number dated 3rd August, 2007.

K. K. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 1st October 2007

No. 3-5/2007-Admn.—In pursuance of DoPT's OMO No. 27/30/2007-EO(SM-1) dated 28th September, 2007, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Kiran Chadha, CSS, as Joint Secretary in the scale of Rs. 18400-22400/- in the Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 01.10.2007 till further orders.

MAHESH ARORA, Director (Admn.)

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 3rd September 2007

No. A-19011/12/2006-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2001 for appointment to Grade I of Central Secretariat Service (CSS) vide Department of Personnel & Training's OM No., 5/2/2006-CS. 1 (Desk) dated 20th August, 2007, the President is pleased to appoint Shri R. Vaidyanathan, a regular Section Officer of the CSS to the Grade I of the CSS (Under Secretary) on regular basis with effect from 01.07.2001.

The appointment of Shri R. Vaidyanathan, Under Secretary would be deemed to have been made effective with effect from 01.07.2001 for the purpose of approved service.

The appointment shall be subject to the final outcome in the Civil Writ Petition No. 3269/2003, CWP No. 3912/2003 and CWP No. 13352/2005 filed in the High Court of Delhi.

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 8th October 2007

No. 3(3)/2006-Pers. I—The President is pleased to appoint on promotion Shri Anil Kumar Pipal (E. Code-223) Scientist 'D' of this Department as Scientist 'E' in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- in the Department of Information Technology w.e.f. 28.09.2007 (A.N.).

GIRISH SAHAI, Deputy Director

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110 003, the 1st October 2007

No. 0540/NIC/2007-Adm. II—Smt. Saroja Krishnamoorthy, Section Officer (Emp. Code No. 0540), NIC Headquarters, New Delhi has retired on superannuation from Government service w.e.f. 30.09.2007 (A.N.) and she is relieved of her duties from the same day.

P. S. PILLAI, Deputy Director (Adm. II)

STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 27th August 2007

CORRIGENDUM

No. 2(2)/2007-PA—Reference Notification of even number dated 26.6.2007 regarding appointment of Private Secretaries.

Name of Lab/Centre against the name of Shri V. Rajendran at Sl. No. 1 may be read as "CFR, Chennai" instead of "ETDC, Hyderabad."

SATVIR SINGH, Deputy Director

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th October 2007

No. ERB-1/2007/2/55—Shri Mohd. Irshad, HAG/IRSME, Adviser(ME), Railway Board, is appointed as Additional Member (ME), Railway Board, in Grade of Rs. 24050-26000/- with effect from the forenoon of 20.09.2007.

MATHEW JOHN, Secy, Railway Board

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 11th October 2007

No. 24/2007. (F. No. 2/9/2006-Admn.)—The President is pleased to appoint Shri Srikanta Panda, IP&TA&FS (88), as Director in the Ministry of Water Resources on central deputation, in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- with effect from the forenoon of 09.10.2007 for a period of 5 years. His tenure in the Ministry will be up to 8.10. 2012, or until further orders, whichever event occurs earlier.

N. K. GUPTA, Under Secy.

No. 25/2007. (F. No. 27/603/2007-Admn.)—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Kumar Arora (IRPS : 92), Deputy Secretary, Ministry of Water Resources as Director in the Ministry of Water Resources, as a measure personal to him, in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- with effect from the forenoon of 17.08.2007. His balance tenure in the Ministry will be upto 16.08.2012, or until further orders, whichever event occurs earlier.

N. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110001, the 28th September 2007

No. 8/5/2005-Admn. II—The President is pleased to accept the resignation from government service tendered by Shri James K. John, Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Information & Broadcasting, posted to Prasar Bharati (Directorate General : Doordarshan) with effect from the forenoon of 26.09.2007.

2. The resignation has been accepted under Rule 26(1) of CCS (Pension) rules, 1972.

RAM PHAL, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi-110018, the 23rd August 2007

No. A-11013/6/2005-DDIA—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Sanjib Sengupta, Senior Architect in CPWD, as Secretary to the Delhi Urban Art Commission in the scale of Rs. 14,300—18,300/- on deputation basis w.e.f. the date of assumption of charge of

the post, for a period up to 31.5.2009 or until further orders, whichever event happens earlier.

N. T. JOSEPH, Under Secy. (DD 1A)

No. K-11011/14/2003-DDIA—The President is pleased to appoint Shri H. Rajesh Prasad, IAS (UT:95) as Commissioner (Land Management) in the Delhi Development Authority at the level of Deputy Secretary for a period of four years from the date of his taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

N. T. JOSEPH, Under Secy. (DD 1A)

New Delhi, the 10th October 2007

No. A-11011/2/2006-UD-I—On the basis of recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Naresh Kumar Dhiran, Associate Town & Country Planner to the post of Town and Country Planner in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in Town and Country Planning Organization w.e.f. the day he assumes the charge of the post till further orders.

H. K. KANDPAL, Under Secy.